



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1801]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939

No. 1801]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

ज्येष्ठ;

ज्येष्ठ ७

वर्ग ११

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

८६-१८०१-२०१७—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 15 मार्च, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 825(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी (

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक भास्कर" तारीख 11 अप्रैल, 2017 और "राजस्थान पत्रिका" तारीख 11 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था (

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए (

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी (

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

## वृद्धि

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : जयपुर

तालुका का नाम : दूदू

Øe l d; k	xke dk uke	[kl j k l d; k	Hkfe dk i d; k	Hkfe dh i d; k	vftir Hkfe dk {k=Qy %gDV; j e#	Hkw Loket@ fgrc) 0; fDr dk uke
1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2
1/2	साली	3386	बारानी 2	निजी	0.0110	स्वराज पुत्र बिरदाराम हि. 1/2 बालीदेवी सुगनीदेवी सुरजानदेवी विमला अमरी पुत्रियां बिरदाराम स्वराज पुत्र बिरदाराम हि. 1/2 रहन जयपुर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि. शाखा, दूदू जाति जाट सा. देह
		3404	बारानी 1	निजी	0.0320	रामचन्द्र श्रवण लक्ष्मण पि. भैरू भवरी रूकमा श्याणी हीरा पुत्रीयां भैरू कौम जाट सा. देह खातेदार। (रामचन्द्र पुत्र भैरू का हि. राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मदनगंज किशनगढ़)
		3406	बारानी 2	निजी	0.0150	मंगला पुत्र रूडाराम कौम अहीर यादव सा. देह खातेदार

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/868]

अचल जैन कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

**S.O. 2023(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 825(E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15<sup>th</sup> March, 2017 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexure to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Jaipur in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Dainik Bhaskar" dated the 11<sup>th</sup> April, 2017 and "Rajasthan Patrika" dated the 11<sup>th</sup> April, 2017 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the Jaipur district in the State of Rajasthan.

Name of the District : Jaipur

Name of the Taluka : Dudu

Serial Number	Name of the Village	Survey Number / Block Number	Nature of Land	Type of Land	Area in Hectare	Name of the Land owner/Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Sali	3386	Barani 2	Private	0.0110	Swaraj S/o Birdaram share 1/2 Bali Devi Sugani Devi Surghyan Devi Vimla Amari D/o Birdaram Swaraj S/o Birdaram share 1/2 Rahan Jaipur Central Co-Operative Bank Ltd. Branch, Dudu caste Jat Sa Deh.
		3404	Barani 1	Private	0.0320	Ramchandra Sharwan Laxman S/o Bhairu Bhawari Rukma Shyani Heera D/o Bhairu Caste Jat Sa Deh Khatedar (Ramchandra S/o Bhairu Ka Hi. Rahin ICICI Bank Branch Mandanganj, Kishangarh).
		3406	Barani 2	Private	0.0150	Mangla S/o Rudaram Caste Ahir Yadav Sa Deh Khatedar.

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/868]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)